

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य-जनपद अमरोहा

दिनांक 23.01.2023

***थाना रहरा पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण कर घटना में संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद* ।**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगे द्वारा संदिग्ध/वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु व अपर पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी हसनपुर श्री अभिषेक कुमार यादव के कुशल निर्देशन में थाना रहरा पुलिस द्वारा ग्राम पतेई खादर में हुई युवक रोहित की हत्या की घटना का सफल अनावरण कर घटना में संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार किया गया जिसकी निशादेही पर आलाकत्ल व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई ।

***संक्षिप्त विवरण*:-** अवगत कराना है कि पर दिनांक 20.01.2023 को ग्राम पतेई खादर में रोहित पुत्र विजय पाल का शव एक गन्ने के खेत में मिला था बाद पोस्टमार्टम व परिजनो की तहरीर के आधार पर थाना रहरा पर दिनांक 22.01.2023 को मु0अ0सं0 18/2023 धारा 34/302 भादवि 3(2)(V) एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया । घटना की गम्भीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना रहरा को गहनता से जांच करने व अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया इसी क्रम में आज दिनांक 23.01.2023 को थाना रहरा पुलिस द्वारा उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त सूबे गुर्जर पुत्र मुनिदेव निवासी ग्राम पतेईखादर थाना रहरा जनपद अमरोहा को हाकमपुर तिराहा से गिरफ्तार किया गया जिसकी निशादेही पर आलाकत्ल मफलर व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल हीरो एच0एफ0 डीलक्स रजि0 नं0 UP23 AE 9762 बरामद हुई । अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

***पूछताछ विवरण*:-** पूछताछ पर अभियुक्त सूबे द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.01.2023 को मृतक रोहित व आकाश के बीच किसी बात को लेकर झगडा हो गया था । मृतक रोहित की पत्नी राखी व आकाश एक ही गाँव के है। दिनांक 20.01.2023 को आकाश मुझे मिला और रोहित को बुलाने के लिये कहा तब मैंने रोहित को फोन किया तो रोहित ने भूपसा वाले खेत पर होना बताया गया जब हम खेत पर पहुंचे तो वहाँ रोहित अकेला था जहाँ पर रोहित व आकाश में फिरसे झगडा होने लगा तब मैंने रोहित को पकड लिया और आकाश ने रोहित के गले में पडे मफलर से उसका गला दबा दिया जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी फिर हमने शव को छिपाने के

उद्देश्य से मेरी मोटर साइकिल डीलक्स से शव को ले जाकर रोहित के गन्ने के खेत में रख दिया था ।



***गिरफ्तार अभियुक्त*:-**

1. अभियुक्त सूबे गुर्जर पुत्र मुनिदेव निवासी ग्राम पतेईखादर थाना रहरा जनपद अमरोहा ।

***अपराधिक इतिहास अभियुक्त*:-** अभियुक्त सूबे गुर्जर पुत्र मुनिदेव निवासी ग्राम पतेईखादर थाना रहरा जनपद अमरोहा

1. मु0अ0सं0 18/2023 धारा 34/302 भादवि 3(2)(V) एससी एसटी एक्ट थाना रहरा - अमरोहा ।

***बरामदगी*:-**

1. मफलर व हीरो एच0एफ0 डीलक्स बरामद मो0सा0 रजि0 न0 UP23 AE 9762

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*:-**

1. निरीक्षक अपराध श्री बालेन्द्र कुमार थाना रहरा जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 श्री सत्यदेव सिंह थाना रहरा जनपद अमरोहा ।
3. का0 136 कुलदीप कुमार थाना रहरा जनपद अमरोहा ।
4. का0 1098 अजीत राणा थाना रहरा जनपद अमरोहा ।

PRO CELL AMROHA